

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 350 ग्राम नाजायज स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 35 लाख रुपये) व मो0सा0 सहित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं डा0 ओ0 पी0 सिंह के कुशल निर्देशन में एव श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिसौली के नेतृत्व में , प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज बदायूं की अध्यक्षता में चलाये जा रहे अभियान अवैद्य मादक पदार्थों की बरामदगी के अन्तर्गत आज दिनांक 10-11-2022 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1. अशरफ अन्सारी पुत्र अफसर अन्सारी निवासी कान्हा नंगला थाना बिनावर जिला बदायूं को 350 ग्राम नाजायज स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख रुपये ) के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पर मु0अ0स0 407/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जिला कारागार बदायूं भेजा गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दिनांक 10.11.2022 को मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चैकिंग के दौरान सुरसैना आंवला रोड पर प्राथमिक विधालय मन्दिर के पास से एक व्यक्ति जो पुलिस को देखकर चौंकर मो0सा0 लेकर भागने का प्रयास किया को दौड़ाकर पकडा गया तथा जिसके कब्जे से 350 ग्राम नाजायज स्मैक जिसको देने के लिये यह व्यक्ति सम्भल जा रहा था कि पकडा गया अभियुक्त के पास से पकडी गयी स्मैक की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 35 लाख रुपये है । पूछताछ में स्मैक उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम जो गैर प्रान्त का रहने वाला है प्रकाश में आया है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक संसूचना प्राप्त की जा रही है । पकडा गया अभियुक्त इसी वर्ष थाना कुवरगाँव से अफीम की सप्लाई करते हुए कुवरगाँव पुलिस द्वारा पकडा गया था और वर्तमान में यह जमानत पर बाहर था । अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1.अशरफ अन्सारी पुत्र अफसर अन्सारी निवासी कान्हा नंगला थाना बिनावर जिला बदायूं

बरामदगी का विवरण

1. 350 ग्राम नाजायज स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 35 लाख रुपये)
2. परिवहन में प्रयुक्त मो0सा0 न0 UP24 J 0143 प्लेटिना रंग काला

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 407/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना वजीरगंज बदायूँ

मु0अ0स0 119/2022 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट थाना कुवरगाँव जिला बदायूँ

मु0अ0सं0 266/2022 धारा 323/504/506 आईपीसी थाना बिनावर जिला बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.श्री धनंजय कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज

2.उ0नि0 श्री राजवली सिंह 3.उ0नि0 श्री दिनेश तिवारी

4.का0 1590 नितिन कुमार 5.का0 1368 अंकित कुमार

6.का0 1589 रोहित कुमार 7.का0 1949 आकाश कुमार

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।